

GITS NEWSTRACK

ABOUT GITS

Geetanjali Institute of Technical Studies, popularly known as GITS, was established by Geetanjali Education Society in the year 2002-03. The institute is recognized by AICTE and Govt of Rajasthan and is affiliated to Rajasthan Technical University, Kota to provide technical and professional education to the youth in general and also the tribal people of the region in particular.

GITS has created a niche in the world of technical and management innovation. Our standard progression of delivering concepts of management, technical skills and computer application is a benchmark in the education industry. Not only we deliver, we are also trouble-shooters when it comes to support talent. We do not judge our height by meters because we have never stopped growing, the fineness of our work has always increased. We are neither behind the time nor ahead we just stay to be honest, we are masters in understanding "The Order of the Day".



VOLUME-VI JUNE 2025 ISSUE: XVII

VISION • To achieve excellence in technical and management education through quality teaching and innovation.

MISSION

- To provide an excellent learning environment to produce socially responsible and productive technical professionals.
- To set up the state-of-the-art facilities for quality education and innovation.
- To impart knowledge & Skills leading to shaping a budding manager as a quality executive.
- To encourage for life-long learning and team-based problem solving through learning environment.

FEATURES

- The First Self Financed Engineering College in Southern Rajasthan.
- Sixth ranked college in Rajasthan (GHRDC-CSR) for quality.
- Highest placements in Southern Rajasthan.
- Ideal teachers to student's ratio maintained as per AICTE norms.
- IBM Software Centre of Excellence- Training and Certification camp on DB2/RAD/TDS/RFT/Lotus/WID.
- Exclusive Innovation Lab for research work set up by Texas Instruments, Bangalore, as per Annexure-VIII.
- Highest Industry- Academic collaborations, National and International tie-ups for better exposure to technology and growth.
- Approved as Host Institute under the Business Incubation Scheme of MSME, Govt. of India.
- First Engineering College to get total admission filled every year in Udaipur region.
- Nodal Centre for NITTTR, Chandigarh for conducting the faculty and student development program.
- Only College Campus with Total Wi-Fi connection, Gym, Air cooled hostels for boys & girls and medical facilities.
- Spoken Tutorial – Open Source Software Tutorials – (IITB Spoken Tutorial).
- AICTE-IDEA Lab.
- Center of Innovation and Incubation.
- Business-Incubation Centre of MSME, Govt. of India.
- GDSC, TIER 1 & GITS Chapter.

EFFORTS TOWARDS



Unique Initiatives:

CENTER FOR INNOVATION & INCUBATION

CENTER OF EXCELLENCE: • INDUSTRIAL AUTOMATION
• VIRTUAL & AUGMENTED REALITY
• SUSTAINABLE BUILDING MATERIALS

STATE LEVEL WINNER:  **iSTART HACKATHON 2023**

ALL INDIA WINNER OF:  **SMART INDIA HACKATHON 2023**  **Agri India Hackathon**

DIRECTOR'S MESSAGE

Greetings!

As we approach the start of new semester for academic year 2025-26, we well prepared academic schedule activity including class work, lab work and training session properly. At GITs, we remain committed to the holistic development of our students. I'm pleased to see our community striking a commendable balance between academic excellence and active participation in co-curricular engagements such as expert talks, workshops, and value-added training sessions across departments.

A notable milestone this month was the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) between GITs and the Airports Authority of India (AAI), Udaipur. This collaboration introduces a Civil Aviation Internship Program aimed at offering students practical exposure through airport visits, internships, and hands-on learning. It promises to bridge the gap between theoretical knowledge and real-world experience in aviation infrastructure.

Additionally, the Department of Computer Science and Engineering successfully organized an International Conference that showcased cutting-edge research in computer and information technology. These initiatives are part of our ongoing efforts to create enriching and innovative learning experiences that contribute meaningfully to education and society.

As exams draw near, I urge all students to embrace self-discipline and prepare with focus and resilience. Faculty members are always available for support and guidance. I am confident that our collective efforts will lead to remarkable academic outcomes and continued institutional growth.

Warm regards,



Director, GITs



Dr. S. M. Prasanna Kumar

CAMPUS DIRECTOR

Geetanjali Institute of Technical Studies

Udaipur, Rajasthan-313022

Mobile: 9414004492

EXPERT TALK >>



Department of Civil Engineering organized a One-Week Value-Added Training Programme on "Architectural Design with Revit" from 16th to 21st June 2025 for third-year B.Tech Civil Engineering students. The training aimed to enhance practical skills in architectural drafting and BIM, conducted by **Mr. Deep Rohit Bhai Shah** from Nemi Design Center, Ahmedabad, through hands-on sessions using Autodesk Revit.

VALUE ADDED TRAINING >>

**GEETANJALI INSTITUTE OF TECHNICAL STUDIES**
(Affiliated to Rajasthan Technical University, Kota & Approved by AICTE, New Delhi)

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING

30 DAYS TRAINING PROGRAM ON

FULL STACK DEVELOPMENT


M E R N

IN ASSOCIATION WITH

UDAIPUR CHAPTER

June 16, 2025 / 9:00 AM-3:30 PM Dept. of CSE

Department of Computer Science and Engineering, in collaboration with the **Computer Society of India (CSI)**, Udaipur Chapter, organized a **Full Stack Development** training from 16th June 2025 for third- and fourth-year CSE and AI students. The training aimed to equip students with practical knowledge of front-end and back-end development, databases, servers, APIs, and version control, offering a complete overview of the Full Stack Development process.

VALUE ADDED TRAINING >>



Department of Computer Science and Engineering organized a 30-day training program on Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) starting from 20th June 2025. The objective of the RHCSA training was to equip participants with the essential skills and knowledge required to perform core system administration tasks in a Linux environment.



Department of CSE, in association with the Computer Society of India (CSI), Udaipur Chapter, organized a training program on Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) from 20th June 2025 for CSE and AI students. The objective of the training was to equip participants with foundational knowledge and practical skills in AI and ML through interactive sessions and hands-on projects.



Department of Computer Science and Engineering organized a training program on C++ and Python starting from 23rd June 2025 for second-year CSE and AI students. The objective of the training was to equip learners with the essential skills and knowledge to effectively use C++ and Python programming for a variety of computational and application development purposes.



Department of CE organized a one-week training program on "DGPS and Drone Surveying" from May 26th to 31st, 2025. Mr. Sunil Kumawat from SK Surveyor conducted the training, focusing on advanced surveying methods. Students gained hands-on experience with DGPS and drone-based surveying techniques. The program enhanced their skills in geospatial data collection and analysis.



Department of Computer Applications organized a 15-day training program on "Basics of Machine Learning", starting from 30th May 2025. The training was conducted by Dr. Jitendra Shrimali and was specifically designed for BCA Second Year students. Approximately 35 students actively participated in the program.



Department of Electronics and Communication Engineering (ECE) conducted a training program on Microwind, Amplifier Design, IoT, and MATLAB for students. These sessions aimed to enhance students' practical skills and technical proficiency in modern electronic design tools and emerging technologies.

VALUE ADDED TRAINING >>



Department of Mechanical Engineering organized a 15-day software training program on **AutoCAD and SolidWorks**, where students gained hands-on experience in creating 2D and 3D models, designs, and drawings. This training enhanced their proficiency in these software tools, preparing them for careers in mechanical design and engineering.



Department of Mechanical Engineering organized a 15-day training program on **Industrial Automation and Robotics**. This program provided students with hands-on experience in programming, design, and implementation of automation solutions. It prepared students for careers in manufacturing, automation, and robotics engineering.



Department of Electrical Engineering organized a 15-day software training program on **C++ and MATLAB**, enhancing students' programming skills and problem-solving abilities. This training equipped students with practical knowledge of C++ and MATLAB, preparing them for careers in electrical engineering and related field



Department of Electronics and Communication Engineering (ECE) conducted a training program on **C and C++** for ECE students of the 2022–2026 batch. The training aimed to strengthen students' foundational programming skills and enhance their problem-solving abilities essential for technical development and industry readiness.

FACULTY DEVELOPMENT PROGRAM >>

GEETANJALI INSTITUTE OF TECHNICAL STUDIES
(Affiliated to Rajasthan Technical University, Kota & Approved by AICTE, New Delhi)

DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES
Organizes
3-DAYS FACULTY DEVELOPMENT PROGRAM ON
EFFECTIVE CLASSROOM ENGAGEMENT

DR. INDU RAO
PRESIDENT, SOCIETY OF MANAGEMENT DEAN, RAJASTHAN TECHNICAL UNIVERSITY

3 JUNE, 2025 ♀ **MBA**
at 11:00 AM Seminar Hall

Department of Management Studies organized a **three-day Faculty Development Program (FDP)** on "**Effective Classroom Teaching**" to enhance pedagogical skills and promote innovative teaching methods among faculty members.

GEETANJALI INSTITUTE OF TECHNICAL STUDIES
(Affiliated to Rajasthan Technical University, Kota & Approved by AICTE, New Delhi)

DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES
Organizes
3-DAYS FACULTY DEVELOPMENT PROGRAM
ROMANTICISM IN TEACHING METHODOLOGY

Prof. P. K. Jain
Director, MBA-GITS

4-5 JUNE 2025 ♀ **MBA**
at 11:00 AM Seminar Hall

Department of Management Studies organized a **three-day Faculty Development Program (FDP)** on "**Romanticism in Teaching Methodology**" to enhance pedagogical skills and promote innovative teaching methodology among faculty members.

WORKSHOP, CONFERENCES AND SEMINAR >>

CHIEF PATRON

Shri J.P. Agarwal
Chairman, Geetanjali Group

Ms. Geeta Agarwal
Director, Geetanjali Group

PATRONS

Shri Kapil Agarwal
Vice-Chairman
Geetanjali Group

Shri Ankit Agarwal
Director-Operations
Geetanjali Group

Ms. Kanika Agarwal
Director
Geetanjali Group

Ms. Shruti Agarwal
Director
Geetanjali Group

CO-PATRONS

Dr. S. M. Prasanna Kumar
Campus Director, GITs

Prof. P. K. Jain
Director-MBA, GITs

Mr. B. L. Jangid
Finance Controller, GITs

KEY-NOTE SPEAKERS



Ms. Pragya Mehta
Digital Strategist & Program Manager
University of Washington, Seattle, Washington, U.S



Mr. Anupam Anand
Senior Manager
Amazon Web Series

CONVENER

Prof. Harshita Shrivastava
HOD, Dept. of Management Studies, GITs, Udaipur

ORGANIZING SECRETARY & COORDINATOR

Prof. Yasmeen Ali
Professor
Dept. of Management Studies, GITs

Dr. Prakriti Dixit Porwal
Associate Professor
Dept. of Management Studies, GITs

ORGANIZING COMMITTEE MEMBERS

Prof. Jitendra Shrivastava | Dr. Manish Sharma | Dr. Kiran Soni | Dr. Twinkle Jain
Dr. Mehvash Baluch | Dr. Hemendra Panwar | Dr. Divya Rathore
Ms. Hansa Bhatnagar | Mr. Bhagwati Lal Prajapati

Thank You
For Further Details or query, Please Contact:
Prof. Yasmeen Ali +91 7023434110
Dr. Prakriti Dixit Porwal +91 9799925505

Link for Whatsapp Group: <https://chat.whatsapp.com/Guz17pNpmZ44jv8KvCDFI>

© Campus : BH-75, Airport Road, Delhi, Bhopal | +91 254 2557800-05 | gits@geetanjali.ac.in | www.gits.ac.in



GEETANJALI INSTITUTE OF TECHNICAL STUDIES
(Affiliated to Rajasthan Technical University, Kota & Approved by AICTE, New Delhi)

INTERNATIONAL CONFERENCE on **BRAND MANAGEMENT** IN PRESENT TIMES

13th – 14th June 2025
[Hybrid Mode]

REGISTER NOW



<https://www.geetanjali.ac.in/Events/BrandManagement2025>

Please take note that registration is compulsory for everyone. Every registered participant will receive an e-certificate.



Department of Management Studies organized an International Conference on “Brand Management in Present Times” on 13th–14th June 2025, featuring global keynote speakers. The conference aimed to explore evolving trends, strategies, and challenges in branding products and individuals in today's competitive environment.

Keynote Speakers:

- Ms. PRAGYA MEHTA, Program Marketing Specialist, University of Washington, Seattle**
Topic: *How to Optimize Your Website for Search: Branding Your Product and Yourself*
- Mr. Anupam Anand, Senior Manager, Amazon Web Services**
Topic: *How to Crack an Interview*



Department of Computer Applications organized a Seminar on “Communication Skills and Leadership Skills” on 6th June, 2025, conducted by **Dr. Arvinder Singh** for MCA and BCA students. The session aimed to strengthen students' interpersonal and leadership abilities, enhancing their confidence, team collaboration, and professional communication skills essential for future career success.

EVENTS AND ACTIVITIES >>



Geetanjali Institute of Technical Studies (GITS) celebrated **International Yoga Day** with enthusiasm, promoting physical and mental well-being among students and faculty. Yoga sessions and awareness programs were organized, highlighting the importance of yoga in achieving balance and harmony in life. GITS encouraged a healthy lifestyle through this ancient practice, fostering a sense of community and wellness on campus.



Geetanjali Institute of Technical Studies, in collaboration with 94.3 MyFM, successfully hosted the **City Topper Event** in Udaipur, recognizing and celebrating the achievements of its science students. The event honored the **academic excellence** and outstanding performance of the students, motivating them to strive for greater heights. **Faculty members** and **industry experts** were present to inspire and guide the students. This event reinforced GITS's commitment to nurturing talent and fostering **academic brilliance**.

AWARD AND RECOGNITION >>

नवाचार

घर की रसोई से बाथरूम तक, नया आविष्कार रखेगा तापमान पर नजर

राकेश का 'डबल सेफ्टी गैजेट' अब दूध उबलेगा नहीं, गीजर भी रहेगा सुरक्षित

राकेश जैन, रसोई में दूध उबल रहा है या बाथरूम में गैस गीजर चल रहा है, अब इसकी जांच करके देखा जा सकेगा। नवाचार की जरूरत नहीं होगी। भौतिकशास्त्र के सुभाषनगर निवासी राकेश जैन (फोटो) ने एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाया है जो रसोई घर से लेकर बाथरूम तक उपलब्ध उपकरणों के तापमान पर नजर रखेगा। जैन

यू काम करता है गजट

यह स्मार्ट गैजेट स्लाइड स्विच दो मोड में कार्य करता है। दोनों मोड में डिस्प्ले स्क्रीन कंटेंट टैपेयर और यूजर द्वारा सेट किए टेम्परेचर को लगातार दिखाता है। घंटों में जब दूध को गर्म किया जाता है, तो उसके घुट्टी लहलहा से गर्म होने पर गैस को बंद किया जाता है। लेकिन कई बार किसी अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण समय पर गैस बंद नहीं हो पाती। इससे दूध उबल कर बर्न से बाहर गिर जाता है। यह समस्या लगभग हर घर में आम है। इस नवाचार की मदद से इस समस्या का समाधान हो सकेगा।

उदयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए अत्यधुनिक तापमान आधारित दूधल सेफ्टी सिस्टम का निर्माण किया है। गैजेट दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करता है। नवाचार की सबसे बड़ी विशेषता इसकी दोहरी उपयोगिता है।

तापमान पर निगरानी

जैन बताते हैं कि रसोई में दूध को उबल कर बाथन से बाहर गिरने से रोकने के लिए गैस नियंत्रण के रूप में तथा बाथरूम में हीटर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑटो कट-ऑफ सिस्टम के साथ रसोई में किसी भी चीज को इम्पेडनसुअर एक निश्चित तापमान तक गरम करने में भी गैजेट उपयोगी है। विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए उपयोगी है। इसे वैध काम लागू में बनाया जा सकता और आसानी से घर में फिट किया जा सकता है।

17 प्रोजेक्ट्स ऑल इंडिया स्तर पर


राकेश जैन अभी तक 31 कॉपीराइट (भारत सरकार अधिनियम 1957), 10 किताबें पेटेंट और 3 यूटिलिटी पेटेंट प्राप्त कर चुके हैं। उनके 17 प्रोजेक्ट्स ऑल इंडिया स्तर पर प्रकाशित हो चुके हैं। कॉपीराइट उनके किताबों और सॉफ्टवेयर संबंधी व्यापारों की सुरक्षा करते हैं, जबकि पेटेंट उनके तकनीकी अनुसंधान और उपयोगिता में सुधार को मान्यता प्रदान करते हैं।

Mr. Rakesh Jain, Assistant Professor, Department of Electronics and Communication Engineering (ECE), received recognition for his project titled **"Temperature-Based Safety Device for Milk Overboiling and Heater Rod Safety"**, which was published in the **Rajasthan Patrika newspaper**. This innovative work highlights his commitment to practical problem-solving and societal impact through technology.

AWARD AND RECOGNITION >>

Office of the Controller General of Patents, Designs & Trade Marks Department for Promotion of Industry and Internal Trade Ministry of Commerce & Industry, Government of India	
Application Details	
APPLICATION NUMBER	202511044441
APPLICATION TYPE	ORDINARY APPLICATION
DATE OF FILING	07/05/2025
APPLICANT NAME	1. RAKESH JAIN 2. DR. SWETA TRIPATHI 3. DR. RASHID HUSSAIN 4. SHRI KRISHNA MISHRA
TITLE OF INVENTION	A SOLAR-POWERED AUTOMATIC STREET LIGHTING SYSTEM USING REAL TIME CLOCK MODULE
FIELD OF INVENTION	ELECTRICAL
E-MAIL (As Per Record)	
ADDITIONAL-EMAIL (As Per Record)	
E-MAIL (UPDATED Online)	
PRIORITY DATE	
REQUEST FOR EXAMINATION DATE	---
PUBLICATION DATE (U/S 11A)	30/05/2025

Mr. Rakesh Jain, Assistant Professor, Department of Electronics and Communication Engineering (ECE), has published a patent titled "Solar Power-Based Automatic Street Light with Real-Time Clock Module." This innovation showcases his dedication to sustainable technology and energy-efficient solutions for smart infrastructure.



Mr. Rakesh Jain, Assistant Professor, Department of Electronics and Communication Engineering (ECE), published a project titled "Dual Mode Scientific Calculator" in India's No. 1 electronics magazine, Electronics For You (EFY). This publication highlights his contribution to innovative electronics design and applied engineering education.

MoU >>

GEETANJALI INSTITUTE OF TECHNICAL STUDIES
(Affiliated to Rajasthan Technical University, Kota & Approved by AICTE, New Delhi)

MOU SIGNING CEREMONY

TATA IIS
TATA INDIAN INSTITUTE OF SKILLS

WEDNESDAY | JUNE 18 | 11:00 AM



A Memorandum of Understanding (MoU) Signing Ceremony was held with TATA IIA on 18th June 2025. This collaboration aims to foster academic-industry partnership, promote skill development, and create opportunities for training, internships and research for students and faculty.

PLACEMENT ACTIVITIES >>

GEETANJALI INSTITUTE OF TECHNICAL STUDIES
(Affiliated to Rajasthan Technical University, Kota & Approved by AICTE, New Delhi)

WELCOMES
AppPerfect
CAMPUS INTERVIEW

- **JOB PROFILE:** Software Engineer
- **ELIGIBLE BRANCHES:** B.Tech CSE, CSE-AI & MCA 2026 Batch
- **JOB LOCATION:** Udaipur

2 JUNE, 2025
at 9:30 AM

www.git.ac.in



GEETANJALI INSTITUTE OF TECHNICAL STUDIES
(Affiliated to Rajasthan Technical University, Kota & Approved by AICTE, New Delhi)

WELCOMES
cemeco
CAMPUS INTERVIEW

- **JOB PROFILE:** Civil Site Engineer
- **ELIGIBLE BRANCH:** B.Tech Civil Engineering 2025 Batch
- **JOB LOCATION:** Udaipur

13 JUNE, 2025
at 9:30 AM

www.git.ac.in



दैनिक नवज्योति
udaipur city - 29 Jun 2025 - Page 3

गिट्स की छात्रा उमंग ने लहरया परचम

उदयपुर। गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज की कॉम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तृतीय वर्ष छात्रा उमंग पाहुजा ने अपने अभिनव प्रोजेक्ट संपूर्णबिन के लिए एमएसएम ई आईडिया हैकार्थन 4.0 के अंतर्गत 13 लाख की फंडिंग प्राप्त कर पूरे उदयपुर का नाम रोशन किया है। कैपस निदेशक डॉ एस.एम. प्रसन्ना ने कहा कि गिट्स हमेशा से नवाचार और इन्व्यूवेशन के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। पिछले वर्ष भी हमारे दो प्रोजेक्ट्स को एम.एस.एम.ई से 226 लाख की फंडिंग मिल चुकी है और इस वर्ष भी गिट्स 13 लाख की फंडिंग प्राप्त कर इतिहास रच दिया है। वह हमारे विद्यार्थियों की लगन और संस्थान की दूरदर्शिता का प्रतीक है।

गिट्स एमएसएमई प्रकोष्ठ के इंचार्ज डॉ विशाल जैन के अनुसार डॉ. मयंक पटेल एवं प्रोफेसर लतीफ खान के निर्देशन में बनाया गया यह प्रोजेक्ट एक सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन है जो छात्रा उमंग पाहुजा के लीड में ईशान बजाज, शौर्यदेव सिंह, लक्ष्यराज पालीवाल, विकास मेघवाल और फरहान शाह द्वारा बनाया गया है। वित्त निबंधक बी.एल. जांगीड़ ने कहा कि यह सफलता दर्शाती है कि गिट्स केवल शिक्षा नहीं देता, बल्कि नवाचार को आकार देता है।

कक्षा 12वीं के प्रतिभावान विद्यार्थियों का किया सम्मान



जननायक। चित्ताईगढ़। गीतांजलि गुप उदयपुर द्वारा गुरुवार को कालिका बाजार स्थित एक होटल में शहर और आसपास के विद्यालय की कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों द्वारा गत सत्र में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने पर विषाख चन्द्रनाथ सिंह आख्या के मुख्य आतिथ्य में आयोजित सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया।

इस अवसर विषाख आख्या ने सभी छात्र-छात्राओं को अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने पर बधाई दी एवं भविष्य में उच्च पदों पर निरुक्त होकर अपने माता-पिता, शिक्षकों, समाज व गांव का नाम रोशन करने

का आह्वान किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रमुख शिक्षण अंश ओमप्रकाश मेनारिया थे।

कार्यक्रम की अध्यक्षता गीतांजलि गुप के निदेशक एम प्रसन्ना की अध्यक्षता एवं अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्र) ओमप्रकाश मेनारिया के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित सम्मान समारोह में 250 छात्र-छात्राओं, 20 प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों को उत्सवपूर्ण कार्यक्रम के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. अनुराग पालीवाल एवं आभार पीके जैन ने व्यक्त किया।

गिट्स के सिविल इंजीनियरिंग विभाग ने डीजीपीएस, ड्रोन सर्वेक्षण प्रशिक्षण दिया

महानगर संवाददाता

उदयपुर। गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के तत्त्वस्थान में एक समग्र का डीजीपीएस एवं ड्रोन सर्वेक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया।



यह प्रशिक्षण कार्यक्रम डीजीपीएस सर्वेक्षण, जोड्राईएस सिस्टम और ड्रोन तकनीक जैसे आधुनिक तकनीकी विषयों पर केंद्रित रहा। संस्थान के निदेशक डॉ एसएम प्रसन्ना द्वारा ने बताया प्रशिक्षण छात्रों को न केवल तकनीकी शिक्षा का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करेगा, बल्कि देश के विकास में सक्रिय भूमिका के लिए भी प्रेरित करेगा। डीजीपीएस सर्वेक्षण एक उन्नत उपकरण आधारित तकनीक है जो पारंपरिक जेड्राईएस की तुलना में कहीं अधिक सटीक लोकेशन डेटा प्रदान करती है। इसमें स्थिर बेस स्टेशन और एक या अधिक मोबाइल रिसेप्टर होते

हैं। जोड्राईएस सिस्टम एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो भौगोलिक डेटा को संग्रह, विश्लेषण और विस्तृत आउटपुट करने में सक्षम बनाती है। जोड्राईएस में विभिन्न प्रकार के डेटा को लेसर्स के रूप में संग्रहित किया जाता है, जैसे सड़कें, जलस्रोत, जनसंख्या वितरण आदि। यह प्रणाली भू-स्थानिक विश्लेषण, योजना निर्माण और निर्माण प्रक्रिया को सहायक बनाती है। विद्यार्थियों को तकनीकी दक्षता प्रदान करने के लिए इसके सर्वेस के प्रमुख अभियंता सुनीलकुमार को बुलाया गया था। सिविल इंजीनियरिंग विभागप्रमुख डॉ मनेश कर्मा के अनुसार इस प्रशिक्षण का उपयोग सिविल इंजीनियरिंग में स्पष्टकृत और भूमि सर्वेक्षण के लिए किया जा सकता है। यह प्रशिक्षण छात्रों के लिए रोमंगर क्षमता बढ़ाने, नवा तकनीकों से परिचित होने और विविध करियर विकल्पों को समझने में सहायक रहेगा। प्रशिक्षण छात्रों को ड्रोन के संचालन नियमों और सुरक्षा मुद्दों के बारे में आवश्यक ज्ञान भी प्रदान करता है, जिससे वे इस क्षेत्र में बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। संस्थान के वित्त निबंधक बीएल जांगीड़ ने कहा इस प्रकार की ट्रेनिंग से छात्रों की करियर निर्माण में सहायता मिलेगी। यह पहल छात्रों को व्यावहारिक योग्यताओं और इंटरनेटिंग का उत्कृष्ट अनुभव कराती है, जिससे वे भविष्य में अपने करियर बन सकते हैं।

प्रातःकाल

Udaipur City Edition | 2025-06-29 | Page-8
#paper.pranatikhal.com

तकनीकी प्रशिक्षण और उद्योग-उन्मुख कौशल विकास के लिए करार



उदयपुर (वि.)। गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज डब्लूक उदयपुर ने आज तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल की। संस्था ने टाटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युअल, अहमदाबाद के साथ एक समरणीय समझौता जमान पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग गिट्स के छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने और उन्हें इंटरनेट-रेडी मैन्युअल से सुसज्जित करने को दिशा में एक सफल कदम है। संस्थान के निदेशक डॉ. एस.एम. प्रसन्ना कुमार ने बताया कि टाटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युअल टाटा ग्रुप द्वारा संचालित एक प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था है। ट्रेनिंग रोड प्लेनमेंट हेड डॉ अरविन्द सिंह पेमावत ने बताया कि करार के तहत विद्यार्थियों को इंटरनेट 4.0, एआई / एमएल, आई को टी, इलेक्ट्रिकल थ्रीकल, रियल्टी एनर्जी जैसे भविष्य के कौशल पर केंद्रित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। साथ ही फैक्टरी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर और डिप्लोमा कोर्स का संचालन और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स, हैंड्स-ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तथा इंटरनेटिंग एवं प्लेसमेंट जैसे सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस अवसर पर वित्त निबंधक बी.एल. जांगीड़ ने इस साझेदारी को संस्था के लिए पंचवत्सर-रेडी एडुकेशन को दिशा में एक निर्णायक कदम बताया।



उदयपुर 04-06-2025

दैनिक नवज्योति

udaipur city - 29 Jun 2025 - Page 3

UDAIPIR CITY EDITION | 2025-06-29 | Page-3

गिट्स की छात्रा उमंग ने लहरया परचम

उदयपुर। गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज की कॉम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तृतीय वर्ष छात्रा उमंग पाहुजा ने अपने अभिनव प्रोजेक्ट संपूर्णबिन के लिए एमएसएम ई आईडिया हैकार्थन 4.0 के अंतर्गत 13 लाख की फंडिंग प्राप्त कर पूरे उदयपुर का नाम रोशन किया है। कैपस निदेशक डॉ एस.एम. प्रसन्ना ने कहा कि गिट्स हमेशा से नवाचार और इन्व्यूवेशन के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। पिछले वर्ष भी हमारे दो प्रोजेक्ट्स को एम.एस.एम.ई से 226 लाख की फंडिंग मिल चुकी है और इस वर्ष भी गिट्स 13 लाख की फंडिंग प्राप्त कर इतिहास रच दिया है। वह हमारे विद्यार्थियों की लगन और संस्थान की दूरदर्शिता का प्रतीक है।

गिट्स एमएसएमई प्रकोष्ठ के इंचार्ज डॉ विशाल जैन के अनुसार डॉ. मयंक पटेल एवं प्रोफेसर लतीफ खान के निर्देशन में बनाया गया यह प्रोजेक्ट एक सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन है जो छात्रा उमंग पाहुजा के लीड में ईशान बजाज, शौर्यदेव सिंह, लक्ष्यराज पालीवाल, विकास मेघवाल और फरहान शाह द्वारा बनाया गया है। वित्त निबंधक बी.एल. जांगीड़ ने कहा कि यह सफलता दर्शाती है कि गिट्स केवल शिक्षा नहीं देता, बल्कि नवाचार को आकार देता है।

एजुकेशन/बिजनेस प्लस

गिट्स: 42 छात्राओं का आरयूआईडीपी में इंटरनेट के लिए चयन, 24000 छात्रवृत्ति

उदयपुर। गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज डब्लूक उदयपुर की 42 छात्राओं का चयन रजस्थान अर्बन इकॉनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इंटरनेट के लिए हुआ। इंटरनेट 8 सप्ताह की होगी। छात्राओं को प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद 24,000 की छात्रवृत्ति (स्टाइपेंड) दी जाएगी।



यह चयन गिट्स और आरयूआईडीपी के बीच हुए करार के तहत हुआ। निदेशक डॉ. एस.एम. प्रसन्ना ने गिट्स हमेशा से महिला

सराक्तिकरण में विश्वास करता है। यही कारण है कि रजस्थान सरकार ने विशेष रूप से महिला छात्राओं के लिए इस इंटरनेट कार्यक्रम में सहयोग किया है।

-: CO-ORDINATORS :-

Mr. Narendra Patel
Assistant Professor, ME

Dr. Charu Khamesra
Professor, H&S

Ms. Charu Kavadia
Assistant Professor, CSE

Dr. Vijendra K. Maurya
Associate Professor, ECE

Dr. Prakriti Dixit Porwal
Associate Professor, MBA

Dr. C.P. Jain
Assistant Professor, EE

Mr. Rajanikant Suthar
Assistant Professor, CE

Ms. Surbhi Sharma
Assistant Professor, MCA

Ms. Shailja Ranawat
Assistant Professor, CDC

कार्यालय नगर निगम
उदयपुर (राज.)
दफ्तर: प्रमुख 23025-24/101
दिनांक: 19/06/2025
ऑफिस फोन: 134715
आम सूचना
सर्व संचालन को अधिकृत किया गया है।

उपस्थान में अप्रति